

בְּמִדְבָּר जंगल-में	אֶתְנֹו हमें	הַמְּוֹלִיחַ ले-चलनेवाला	מִצְרַיִם मिस्र-के	מֵאֶרֶץ देश-से	אֶתְנֹו हमें	הַמְּעִלָּה उठानेवाला	יְהוָה यहोवा	אֵינָה कहाँ	אָמְרוּ कहा-उन्होंने	וְלֹא और-नहीं	
	H0853	H3212	H4714	H0776	H0853	H5927	H3068	H0346	H0559	H3808	
אִישׁ मनुष्य	בָּהּ उस-में	עָבַר गुजरा	לֹא- नहीं-	בְּאֶרֶץ देश-में	וְצִלְמוֹת और-मृत्यु-छाया-की	צִיָּה सूखे-की	בְּאֶרֶץ देश-में	וְשִׁוְחָה और-गढ्ढे-की	עָרְבָה मरुस्थल-की	בְּאֶרֶץ देश-में	
H0376			H3808	H0776	H6757	H6723	H0776	H7745	H6160	H0776	
								שָׁם: वहाँ	אָדָם आदमी	יָשָׁב बसा	וְלֹא- और-नहीं-
								H8033	H0120	H3427	H3808

तुम्हारे पूर्वजों ने यह नहीं कहा, 'यहोवा ने हमें मिस्र से निकाला। यहोवा ने मरुभूमि में हमारा नेतृत्व किया। यहोवा हमें सूखे चट्टानी प्रदेश से लेकर आया, यहोवा ने हमें अस्थकारपूर्ण और भयपूर्ण देशों में राह दिखाई। कोई भी लोग वहाँ नहीं रहते कोई भी लोग उस देश से यात्रा नहीं करते। लेकिन यहोवा ने उस प्रदेश में हमारा नेतृत्व किया। अतः वह यहोवा अब कहाँ हैं?'

וְתָבֵאוּ और-आए-तुम	וְשִׁוְבָה और-अच्छाई-उसकी	פְּרִיָּה फल-उसका	לְאֹכֵל खाने-के-लिए	הַכְּרָמָל बाग-का	אֶרֶץ देश	אֶל- पास-	אֶתְכֶם तुमको	וְאֵבִיא और-लाया-मैंने
H0935	H2898	H6529	H0398	H3759	H0776	H0413	H0853	H0935

לְתוֹעֵבָה: घृणित-के-लिए	שְׂמָתָם बनाया-तुमने	וְנִחַלְתִּי और-विरासत-मेरी	אֶרְצִי देश-मेरी	אֶת- -	וְתִשְׁמְאוּ और-अशुद्ध-किया-तुमने
H8441		H5159	H0776	H0853	

"यहोवा कहता है, मैं तुम्हें अनेक अच्छी चीज़ों से भरे उत्तम देश में लाया। मैंने यह किया जिससे तुम वहाँ उगे हुये फल और पैदावार को खा सके। किन्तु तुम आए और मेरे देश को तुमने "गन्दा" किया। मैंने वह देश तुम्हें दिया था, किन्तु तुमने उसे बुरा स्थान बनाया।"

וְהָרַעִים और-चरवाहों-ने	יָדְעוּנִי जानते-थे-मुझे	לֹא नहीं	הַתּוֹרָה व्यवस्था-की	וְתַפְשִׁי और-पकड़नेवाले	יְהוָה यहोवा	אֵינָה कहाँ	אָמְרוּ कहा	לֹא नहीं	הַכְּהֹנִים याजकों-ने
	H3045	H3808	H8451	H8610	H3068	H0346	H0559	H3808	H3548
הָלְכוּ: चले-वे	יֹעֵלוּ लाभ-देते-हैं-जो	לֹא- नहीं-	וְאֶחָרָי और-पीछे	בְּבָעַל बाल-में	נְבָאוֹ भविष्यवाणी-की	וְהִנְבִּיאִים और-भविष्यवक्ताओं-ने	כִּי मेरे-विरुद्ध	פָּשְׁעוּ अपराध-किया	
H1980	H3276	H3808		H5012	H5030			H6586	

"याजकों ने नहीं पूछा, 'यहोवा कहाँ हैं' व्यवस्था को जाननेवाले लोगों ने मुझको जानना नहीं चाहा। इस्राएल के लोगों के प्रमुख मेरे विरुद्ध चले गए। नबियों ने झूठे बाल देवता के नाम भविष्यवाणी की। उन्होंने निरर्थक देव मूर्तियों की पूजा की।"

אָרִיב: लडूंगा-मैं	בְּנֵיכֶם पुत्रों-तुम्हारे-के	בְּנֵי पुत्रों-के	וְאֶת- और-साथ-	יְהוָה यहोवा-का	נָא- वचन-	אֶתְכֶם तुम-से	אָרִיב लडूंगा-मैं	עַד फिर-से	לְכֵן इसलिए
H7378			H0854	H3068	H5002	H0854	H7378	H5750	

यहोवा कहता है, "अतः मैं अब तुम्हें फिर दोषी करार दूँगा, और तुम्हारे पौत्रों को भी दोषी ठहराऊँगा।"

הֵן क्या	וְרָאוּ और-देखो	מְאֹד बहुत	וְהִתְבּוֹנְנוּ और-समझो	שְׁלַחוּ भेजो	וְקִדְרוּ और-केदार	וְרָאוּ और-देखो	כַּתְּמִים कित्तीम-के	אֵי द्वीपों	עֲבְרוּ पार-करो	כִּי क्योंकि
H2005	H7200	H3966	H0995	H7971	H6938	H7200	H3794	H0339		
									קִזְאָת: ऐसी	הִיָּתָה हुई
									H2063	H1961

समुद्र पार कित्तियों के द्वीपों को जाओ और देखो किसी को केदार प्रदेश को भेजो और उसे ध्यान से देखने दो। ध्यान से देखो क्या कभी किसी ने ऐसा काम किया:

בְּלֹא	כְּבוֹדוֹ	הַמִּיר	וְעַמִּי	אֱלֹהִים	לֹא	וְהִמָּה	אֱלֹהִים	גּוֹי	הַהִימִיר	11
बिना-	महिमा-उसकी	बदला	और-लोगों-मेरे-ने	देवता	नहीं	और-वे	देवताओं-को	जाति	क्या-बदलती-है	
H3808	H3519	H4171		H0430	H3808	H1992	H0430		H4171	

יְעִילִי:
लाभ-देती-है-जो
[H3276](#)

क्या किसी राष्ट्र के लोगों ने कभी अपने पुराने देवताओं को नये देवता से बदला है नहीं! निसन्देह उनके देवता वास्तव में देवता हैं ही नहीं। किन्तु मेरे लोगों ने अपने यशस्वी परमेश्वर को निरर्थक देव मूर्तियों से बदला हैं।

שָׁמַיִם	שָׁמַיִם	עַל-	זֶאת	וְשַׁעֲרָו	הַרְבֵּוּ	מְאֹד	נֹאמַר	יְהוָה:	12
आकाश	चकित-होओ	पर-	इस	और-काँपो	सूखी	बहुत	वचन-	यहोवा-का	
H8064	H8074		H2063		H3966	H5002	H3068	H3068	

“आकाश, जो हुआ है उससे अपने हृदय को आघात पहुँचने दो! भय से काँप उठो!” यह सन्देश यहोवा का था।

כִּי-	שְׁתִּימָם	רְעוּת	עֲשָׂה	עַמִּי	אֶתִּי	עֲזָבוּ	וּמְקוֹר	מִים	חַיִּים	לְחַצְב	13
क्योंकि-	दो	बुराई	की	लोगों-मेरे-ने	मुझे	छोड़ा-उन्होंने	स्रोत	पानी-का	जीवित-के	खोदने-के-लिए	
	H8147			H0853			H4726	H4325		H2672	

לָהֶם
अपने-लिए
בְּאֵרוֹת
कुओं
בְּאֵרֹת
कुएं
נִשְׁבְּרִים
टूटे-हुए
אֲשֶׁר
जो
לֹא-
नहीं-
יִכְלוּ
थाम-सकते-हैं-जो
הַמַּיִם:
पानी
[H4325](#)

“मेरे लोगों ने दो पाप किये हैं। उन्होंने मुझे छोड़ दिया (मैं ताजे पानी का स्रोत हूँ!) और उन्होंने अपने पानी के निजी हौज खोदे हैं। (वे अन्य देवताओं के भक्त बने हैं।) किन्तु उनके हौज टूटे हैं। उन हौजों में पानी नहीं रुकेगा।

הַעֲבָדָה	יִשְׂרָאֵל	אִם-	יְלִיד	בֵּית	הוּא	מִדְּוַע	הִיא	לְבוֹ:	14
क्या-दास	इसाएल	क्या-	जन्मा	घर-का	वह	क्यों	हुआ	लूट-के-लिए	
H5650	H3478		H3211		H1931	H4069	H1961	H0957	

“क्या इस्राएल के लोग दास हो गए हैं ल के लोगों की सम्पत्ति अन्य लोगों ने क्यों ले ली

עָרִיו	יִשְׂרָאֵל	כַּפְרִים	נָתַנוּ	קוֹלָם	וַיִּשְׂתָּנוּ	אֶרְצוֹ	לְשִׁמָּה	עָרִיו	15
नगर-उसके	गरजते-हैं	जवान-सिंह	दिया-उन्होंने	आवाज़-अपनी	और-बनाया-उन्होंने	देश-उसकी	वीराने-के-लिए	नगर-उसके	
	H7580		H5414		H7896	H0776	H8047		

נִצְתָּה
[केतीब]
(נִצְתָּה)
जलाए-गए
מִבְּלִי
बिना-
יָשָׁב:
निवासी
[H3427](#)

जवान सिंह (शत्रु) इस्राएल राष्ट्र पर दहाड़ते हैं, गुरते हैं। सिंहों ने इस्राएल के लोगों का देश उजाड़ दिया हैं। इस्राएल के नगर जला दिये गए हैं। उनमें कोई भी नहीं रह गया है।

גַּם-	בְּנֵי-	נָף	וְחַפְנִס]	(וְחַפְנִס)	יְרֵעוּ	קָדְקָד:	16
भी-	पुत्रों-	नोफ	[केतीब]	और-तखपन्हेस-के	चराएंगे-तुझे	खोपड़ी	
H1571	H5297	H8471	H8471	H8471	H6936		

नोफ और तहपन्हेस नगरों के लोगों ने तुम्हारे सिर के शीर्ष को कुचल दिया है।

הַלֹּא-	זֶאת	תַּעֲשֶׂה-	לָךְ	עֲזָבוּ	אֶת-	יְהוָה	אֱלֹהֶיךָ	מִלִּיכָךְ	17
क्या-नहीं-	यह	करती-है-	तुझे	छोड़ना-तेरा-	-	यहोवा-को	एलोहीम-तेरे	चलानेवाला-तुझे	
H3808	H2063				H0853	H3068	H0430	H3212	

בְּיָדְךָ:
राह-में
[H1870](#)

यह परेशानी तुम्हारे अपने दोष के कारण है। तुम अपने यहोवा परमेश्वर से विमुख हो गए, जबकि वह सही दिशा में तुम्हें ले जा रहा था।

מִי	הַאֲנָתָהּ	רוּחַ	שָׁאֲפָהּ	(נִפְשָׁהּ)	נִפְשׁוֹן	בְּאֶת	מִדְּבַר	לְמַד	וַפְרָה	24
कौन	कामुकता-उसकी	हवा	सूँघती-है	प्राण-उसके	[केतीब]	इच्छा-में	जंगल-की	सीखी-हुई	जंगली-गधी	
H4310		H7307		H5315	H5315	H0185		H3928	H6501	

יִמְצְאוּנָהּ	בְּחֻדְשָׁהּ	וַיֵּעָפוּ	לֹא	מִבְּקָשֶׁיהָ	כָּל-	יִשְׁבְּנָהּ
पाएंगे-वे-उसे	महीने-उसके-में	थकेंगे-वे	नहीं	खोजनेवाले-उसके	सब-	मोड़ेगा-उसे
H4672	H2320	H3286	H3808	H1245	H3605	H7725

तुम उस जंगली गधी की तरह हो जो मरुभूमि में रहती है और सहभोग के मौसम में जो हवा को सूँघती है (गन्ध लेती है।) कोई व्यक्ति उसे कामोत्तेजना के समय लौटा कर ला नहीं सकता। सहभोग के समय हर एक गधा जो उसे चाहता है, पा सकता है। उसे खोज निकालना सरल है।

כִּי-	לֹא	נֹאֲשָׁ	וְהֵאמְרֵי	מִצְמָאָהּ	(וַגְּרוֹנָהּ)	מִיָּתִיב	רִגְלוֹ	מִנְעֵי	25
क्योंकि-	नहीं	निराशा	और-कहा-तूने	प्यास-से	और-गले-तेरे	[केतीब]	नंगे-पांव-से	पांव-अपने	रोक
H3808	H2976	H0559	H6773	H1627	H1637	H3182	H7272	H4513	

אֶהְרִי	זָרִים	וְאַחֲרֵיהֶם	אֶלָּהּ
प्रेम-करती-मैं	पराए-से	और-पीछे-उनके	जाऊंगी-मैं
H0157			H3212

यहूदा, देवमूर्तियों के पीछे दौड़ना बन्द करो। उन अन्य देवताओं के लिये प्यास को बुझ जाने दो। किन्तु तुम कहते हो, 'यह व्यर्थ है! मैं छोड़ नहीं सकता! मैं उन अन्य देवताओं से प्रेम करता हूँ। मैं उनकी पूजा करना चाहता हूँ।'

מְלִכֵיהֶם	הַמֶּלֶךְ	יִשְׂרָאֵל	בֵּית	הַבְּיָשׁוּ	כֵּן	יִמְצָא	כִּי	נִגְבַּ	כְּבִשָׁת	26
राजा-उनके	वे	इस्राएल-का	घराना	लज्जित-हुए	वैसे	पकड़ा-जाता-है	जब	चोर-का	लज्जा-जैसे	
H4428	H1992	H3478		H0954		H4672		H1590	H1322	

וַגְּבֵי־הֶם	וְכַהֲנֵיהֶם	שָׁרֵיהֶם
और-भविष्यवक्ता-उनके	और-याजक-उनके	हाकिम-उनके
H5030	H3548	H8269

"चोर लज्जित होता है जब उसे लोग पकड़ लेते हैं। उसी प्रकार इस्राएल का परिवार लज्जित है। राजा और प्रमुख, याजक और नबी लज्जित हैं।

כִּי-	(וַיִּלְדֻּנָּהּ)	אֶת	וְלֶאֱבֹן	אֶתָּה	אָבִי	לְעֵץ	אֲמַרִים	27
क्योंकि-	जन्म-दिया-तूने-हमें	[केतीब]	तू	और-पत्थर-से	तू	पिता-मेरे	लकड़ी-से	कहते-हैं-वे
	H3205	H3205	H0068		H0001	H6086	H0559	

וְהוֹשִׁיעֵנוּ	קוּמָה	וַיִּאמְרוּ	רַעְתָּם	וּבְעֵת	פָּנִים	וְלֹא	עָרַף	אֵלַי	פָּנוּ
और-बचा-हमें	उठ	कहेंगे-वे	विपत्ति-उनकी	और-समय-में	चेहरा	और-नहीं	पीठ	मेरी-ओर	फेरा-उन्होंने
H3467		H0559		H6256	H6440	H3808	H6203	H0413	H6437

वे लोग लकड़ी के टुकड़ों से बातें करते हैं, वे कहते हैं, 'तुम मेरे पिता हो।' वे लोग चट्टान से बात करते हैं, वे कहते हैं, 'तुमने मुझे जन्म दिया है।' वे सभी लोग लज्जित होंगे। वे लोग मेरी ओर ध्यान नहीं देते। उन्होंने मुझसे पीठ फेर ली है। किन्तु जब यहूदा के लोगों पर विपत्ति आती है तब वे मुझसे कहते हैं, 'आ और हमें बचा!'

רַעְתָּהּ	בְּעֵת	וַיִּשְׁעוּנָהּ	אִם-	יִקְוֶמוּ	לָךְ	עָשִׂיתָ	אֲשֶׁר	אֱלֹהֶיךָ	וְאֵיךְ	28
विपत्ति-तेरी	समय-में	बचाएंगे-वे-तुझे	यदि-	उठें-वे	अपने-लिए	बनाए-तूने	जो	देवता-तेरे	और-कहां	
	H6256	H3467						H0430	H0346	

כִּי	מִסְפָּר	עָרִיךְ	הָיוּ	אֱלֹהֶיךָ	יְהוָה:	ס
क्योंकि	गिनती-में	नगरों-तेरे	थे	देवता-तेरे	यहूदा	[अनुच्छेद]
	H4557		H1961	H0430	H3063	

उन देवमूर्तियों को आने और तुमको बचाने दो! वे देवमूर्तियाँ कहाँ हैं जिसे तुमने अपने लिये बनाया है हमें देखने दो, क्या वे मूर्तियाँ आती हैं और तुम्हारी रक्षा विपत्ति से करती हैं यहूदा के लोगों, तुम लोगों के पास उतनी मूर्तियाँ हैं जितने नगर।

לְמַדָּה	תְּרִיבוּ	אֵלַי	כָּלְכֶם	פִּשְׁעֵתֶם	כִּי	נֹאֲם-	יְהוָה:	29
क्यों	लड़ते-हो-तुम	मेरे-विरुद्ध	तुम-सबने	अपराध-किया-तुमने	मेरे-विरुद्ध	वचन-	यहोवा-का	
H4100	H7378	H0413	H3605	H6586	H5002	H3068		

"तुम मुझसे विवाद क्यों करते हो तुम सभी मेरे विरुद्ध हो गए हो।" यह सन्देश यहोवा का था।

תַּרְבֵּכֶם	אַבְלָה	לָקַחוּ	לֹא	מוֹטָר	בְּנֵיכֶם	אֶת-	הַכִּיּוֹתִי	לְשׂוֹא	30
तलवार-तुम्हारी-ने	खा-गई	लिया-उन्होंने	नहीं	अनुशासन	पुत्रों-तुम्हारे	-	मारा-मैंने	व्यर्थ-में	
H2719	H0398	H3947	H3808	H4148		H0853	H5221	H7723	

מְשַׁחֵת: מְשַׁחֵת
नाशकरनेवाला
H7843

כָּאֲרִיָּה
सिंह-जैसे

נְבִיאֵיכֶם
भविष्यवक्ताओं-तुम्हारे
H5030

“यहूदा के लोगों, मैंने तुम्हारे लोगों को दण्ड दिया, किन्तु इसका कोई परिणाम न निकला। तुम तब लौट कर नहीं आए जब दण्डित किये गये। तुमने उन नबियों को तलवार के घाट उतारा जो तुम्हारे पास आए। तुम खूंखार सिंह की तरह थे और तुमने नबियों को मार डाला।”

מֵאֲפֵלָיָה	אֶרֶץ	אִם	לְיִשְׂרָאֵל	הָיִיתִי	הַמְדַבֵּר	יְהוָה	דְּבַר-	רָאוּ	אַתֶּם	הַחֹר	31
अंधरे-का	देश	या	इस्राएल-के-लिए	था-मैं	क्या-जंगल	यहोवा-का	वचन-	देखो	तुम	पीढ़ी	
H3991	H0776		H3478	H1961		H3068	H1697	H7200		H1755	

מְרִוּעַ אֲמַרְוּ
कहो
H0559

עַמִּי
लोगों-मेरे-ने

רָדְנָו
घुमे-हम

לֹא-
नहीं-

נָבִיא
आएंगे-हम

עוֹד
फिर

אֶלַי:
तेरे-पास
H0413

H5750

H0935

H3808

H7300

H4069

इस पीढ़ी के लोगों, यहोवा के सन्देश पर ध्यान दो: “क्या मैं इस्राएल के लोगों के लिये मरुभूमि सा बन गया? “क्या मैं उनके लिये अंधरे और भयावने देश सा बन गया? मेरे लोग कहते हैं, ‘हम अपनी राह जाने को स्वतन्त्र हैं, यहोवा, हम फिर तेरे पास नहीं लौटेंगे!’ वे उन बातों को क्यों कहते हैं?”

מִסְפָּר:	אֵין	יָמִים	שָׂכַחוּנִי	וְעַמִּי	קִשְׁרִיָּה	כָּלָה	עָדָה	בְּתוּלָה	הַתְּשֻׁכָּה	32
गिनती	बिना	दिन	भूला-मुझे	और-लोगों-मेरे-ने	बंधन-उसके	दुल्हन	गहने-अपने	कुंवारी	क्या-भूलती-है	
H4557	H0369	H3117	H7911		H7196	H3618	H5716	H1330	H7911	

क्या कोई युवती अपने आभूषण भूलती है नहीं। क्या कोई दुल्हन अपने श्रृंगार के लिए अपना टुपट्टा भूल जाती है नहीं। किन्तु मेरे लोग मुझे अनगिनत दिनों से भूल गए हैं।

לְמַדְתִּי	הָרְעוֹת	אֶת-	גַּם	לְכֹן	אֶהְבֶּה	לְבַקֵּשׁ	דְּרָכָךְ	תִּיטְבִי	מֵה-	33
[केतीब]	बुराइयों-को	-	भी	इसलिए	प्रेम	खोजने-के-लिए	राह-अपनी	सुधारती-है-तू	क्या-	
H3925		H0853	H1571		H0160	H1245	H1870	H3190	H4100	

לְמַדְתִּי ()
सिखाया-तूने
H3925

אֶת-
-
H0853

דְּרָכֶיךָ:
राहों-तेरी
H1870

“यहूदा, तुम सचमुच प्रेमियों (झूठे देवताओं) के पीछे पड़ना जानते हो। अतः तुमने पाप करना स्वयं ही सीख लिया है।

כִּי	מִצְאָתִים	בְּמַחְתָּרָת	לֹא-	נִקְיִים	אֲבִיוֹנִים	נִפְשׁוֹת	דָּם	נִמְצָאוּ	בְּכַנְפֵיךָ	גַּם	34
बल्कि	पाया-मैंने-उर्ने	खुदाई-में	नहीं-	निर्दोष	गरीबों-के	प्राणों	रक्त	पाया-गया	कनारों-तेरे-में	भी	
	H4672	H4290	H3808		H0034	H5315	H1818	H4672	H3671	H1571	

עַל-
पर-

כָּל-
सब-

אֵלָה:
इन
H0428

H3605

तुम्हारे हाथ खून से रंगे हैं! यह गरीब और भोले लोगों का खून है। तुमने लोगों को मारा और वे लोग ऐसे चोर भी नहीं थे जिन्हें तुमने पकड़ा हो! तुम वे बुरे काम करते हो!

עַל-	אֶתְךָ	נִשְׁפָּט	הֲנִי	מִמֶּנִּי	אִפּוֹ	שָׁב	אֶשׁ	נִקְיָתִי	כִּי	וְהֶאֱמַרְוּ	35
पर-	तुझ-से	न्याय-करता-हूँ	देख-मैं	मुझ-से	क्रोध-उसका	फिरा	अवश्य	निर्दोष-हूँ-मैं	कि	और-कहा-तूने	
	H0853	H8199	H2009		H0639	H7725	H0389	H5352		H0559	

אֶמְרָה
कहना-तेरा
H0559

לֹא
नहीं
H3808

קִטְאַתִּי:
पाप-किया-मैंने
H2398

किन्तु तुम फिर कहते रहते हो, ‘हम निरपराध हैं। परमेश्वर मुझ पर क्रोधित नहीं है।’ अतः मैं तुम्हें झूठ बोलने वाला अपराधी होने का भी निर्णय दूँगा। क्योंकि क्योंकि तुम कहते हो, “मैंने कुछ भी बुरा नहीं किया है।”

תְּבוֹשִׁי	מִמִּצְרַיִם	גַּם	דָּרַכְתָּ	אֶת-	לְשִׁנוֹת	מְאֹד	תִּזְלִי	מֵה-	36
लज्जित-होगी-तू	मिस्र-से	भी	राह-अपनी	-	बदलने-के-लिए	बहुत	हल्की-समझती-है-तू	क्या-	
H0954	H4714	H1571	H1870	H0853		H3966	H0235	H4100	
						מֵאֲשׁוּר:	כְּשֶׁתָּ	כְּאֲשֶׁר-	
						अश्शूर-से	लज्जित-हुई-तू	जैसे-	
						H0804	H0954		

तुम्हारे लिये इरादे को बदलना बहुत आसान हैं। अश्शूर ने तुम्हें हताश किया! अतः तुमने अश्शूर को छोड़ा और सहायता के लिये मिस्र पहुँचे। मिस्र तुम्हें हताश करेगा।

בְּמִבְטָחֶיךָ	יִהְיֶה	מֵאֵס	כִּי-	רֵאשִׁית	עַל-	וַיְדַבֵּר	תִּצְאֵי	זֶה	מֵאֵת	גַּם	37
भरोसों-तेरे-में	यहोवा-ने	तुच्छ-किया	क्योंकि-	सिर-तेरे	पर-	और-हाथ-तेरे	निकलेगी-तू	इस	से-	भी	
H4009	H3068					H3027	H3318	H2088	H0854	H1571	
							לָהֶם:	תִּצְלַחֲךָ	וְלֹא		
							उन-के-साथ	सफल-होगी-तू	और-नहीं		
									H3808		

ऐसा होगा कि तुम मिस्र भी छोड़ोगे और तुम्हारे हाथ लज्जा से तुम्हारी आँखों पर होंगे। तुमने उन देशों पर विश्वास किया। किन्तु तुम्हें उन देशों में कोई सफलता नहीं मिलेगी। क्यों क्योंकि यहोवा ने उन देशों को अस्वीकार कर दिया है।